

प्रेषक,

डी० सैन्थिल पाण्डियन,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवम् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 07 अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 28 ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि की स्वकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-262/लेखा-बी-4(i)/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजनागत पक्ष में संलग्नक के कॉलम-2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹० 2500.00 लाख/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-312/XXVII(1)/2016 दि० 31 मार्च, 2017 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment IdS..... है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-1638/XXX-1-12(25)2011, दि०-08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-98 01-ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य (4515-00-800-05 से स्थानान्तरित)-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दि० 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(डी० सैन्थिल पाण्डेयन)

प्रभारी सचिव।

संख्या- ^{CR R 800} 91(1)/XII-2/2017/83(04)/2014, तदुदिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-1/4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सोमपाल)
उप सचिव।


(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	मार्ग का नाम	प्रखण्ड का नाम	विकासखण्ड का नाम	लम्बाई कि०मी० में	स्वीकृत लागत (लाख ₹० में)	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (लाख ₹० में)	वर्तमान में अवमुक्त धनराशि (लाख ₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रातीघाट बेतालघाट मार्ग से गैरखाल मोटर मार्ग	नैनीताल	बेतालघाट	1.325	95.980	59.640	36.340
2	गणानाथ मोटर मार्ग से ग्राम सभा थापला तक मोटर मार्ग का निर्माण	अल्मोडा	ताकुला	1.200	113.790	85.840	27.950
3	अल्मोडा पिथौरागढ़ मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पूनाकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	अल्मोडा	भैंसियाछाना	2.000	205.320	136.400	68.920
4	शशिखाल ब्याखुली पडाव से मल्ला धुवा होते हुए जी०आई०सी० सौली तक सड़क निर्माण (मा० मध्यमत्री जी कार्यालय से प्राप्त)	भिकियासैण	सल्ट	2.850	215.080	100.450	114.630
5	ग्रामीण सड़क विभाग के अन्तर्गत तडागताल खोला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग से ग्राम न्योनी ग्रामीण मोटर मार्ग	भिकियासैण	चौखुटिया	1.800	146.510	85.000	61.510
6	गोगिना सल्ला मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	मूनाकोट	1.500	164.740	56.750	107.990
7	बुजाड से चौना सड़क निर्माण	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	1.450	140.930	56.010	84.920
8	लोहाघाट किमतोली मोटर रोड कि०मी० 08 से नाकोट मोटर मार्ग निर्माण (परिवर्तित)	चम्पावत	लोहाघाट	2.325	248.360	37.340	211.020
9	लोहाघाट दिगालीचौड रोड के कि०मी० 16 से बसेडी तक मोटर मार्ग का निर्माण (परिवर्तित)	चम्पावत	लोहाघाट	1.525	169.720	36.900	132.820
10	मसुराडी वाया चौखा से मरोठ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	कनालीछीना	2.500	240.530	73.730	166.880
11	जौलजीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग से ग्राम बरमगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	धारचूला	2.000	208.900	86.400	122.500

12	पौडी सतपुली से पंचाली मोटर मार्ग का निर्माण	पौडी	कल्जीखाल	1.000	89.870	60.780	27.000
13	पाबौ बिसल्ट मोटर रोड से कमेडी तक मोटर मार्ग का निर्माण	पौडी	पाबौ	2.096	212.930	55.000	153.930
14	एकेश्वर सतपुली मोटर मार्ग से प्राप्त बडोली से ग्राम बिजोली चमेली तक मोटर मार्ग का निर्माण	पौडी	एकेश्वर	2.400	222.050	95.000	122.050
15	ढाबखाल से सिनाला तक मोटर मार्ग (रिखणीखाल)	कोटद्वार	रिखणीखाल	2.250	201.890	110.520	90.000
16	काण्डाखाल-चैलूसैण मोटर मार्ग के बिरमोलीखाल से बिरमोली तक मोटर मार्ग (द्वारीखाल)	कोटद्वार	द्वारीखाल	1.275	130.170	56.890	72.000
17	घनसाली-मयाली-रुद्र प्रयाग मोटर मार्ग के कि०मी० 42.50 से लम्बवाड-खरियाल गांव तक मोटर मार्ग निर्माण	रुद्रप्रयाग	जखोली	1.650	159.480	85.400	72.500
18	बडियार गढ सौराखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 9 में कुमाडी खाल ग्रामीण मोटर मार्ग	घनसाली	कीर्तिनगर	1.525	158.960	36.060	122.900
19	चम्बा धरासू मोटर मार्ग से कलेथ ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	टिहरी	थौलधार	1.375	148.840	95.410	53.430
20	नाई भिण्डार्थ मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से नौगांव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	टिहरी	नरेन्द्रनगर	2.150	210.390	86.500	123.860
21	उत्तरकाशी लम्बगांव मोटर मार्ग कि०मी० 37 दिखोली से चौन्दीघाट गांव होते हुये तामेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	डुण्डा	2.100	194.220	99.110	86.270
22	कवानू मीनस मोटर मार्ग के पाटन से आसोई ग्राम हेतु ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	देहरादून	चकराता	3.000	258.120	72.100	186.020
23	बिजऊ मोटर मार्ग से स्याली बैन्ड समाया हेतु ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	देहरादून	कालसी	2.150	176.170	100.390	73.700

24	पौधा मार्ग में मेहरकोट हेतु ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	देहरादून	सहसपुर	1.475	116.160	100.000	16.160
25	ग्राम केवलपुर से साईसी भागेपुर में रोड से महाडी के सामने सड़क निर्माण कार्य	हरिद्वार	लक्षर	1.540	104.530	56.110	27.500
26	ग्राम बस्वाखेडी में झबरेडा गुरुकुल मार्ग से बस्वाखेडी की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	हरिद्वार	नारसन	2.278	151.660	56.590	67.700
27	ग्राम मूलदासपुर माजरा में दौलतपुर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	हरिद्वार	रुडकी	2.150	111.700	56.500	32.800
28	ग्राम खजूरी से झबरेडा रोड मार्ग का निर्माण कार्य	हरिद्वार	भगवानपुर	1.750	116.170	56.230	36.700
	योग :-	-	-	52.639	4713.170	2093.050	2500.000

(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)


(सोमपाल)
उप सचिव।
३

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, RES (S039)

आवंटन पत्र संख्या -

(RR&DD)
91/XII-2/2017/83(04)/14

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1709190024

आवंटन पत्र दिनांक -11-Sep-2017

HOD Name - Director Rural Roads & Drainage (4201)

- 1: लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 -
103 - ग्राम्य विकास
98 - नावार्ड पोषित
01 - ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य (4515-00-800-05 से स्थानान्तरित)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	0	250000000	250000000
	0	250000000	250000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

250000000